

HARDWYN INDIA LIMITED B-101, Mayapuri Indl. Area, Phase-1 New Delhi-110064 Tel.: 011-28115352, 28114972, 28114643

Date: 17th February, 2024

To, The Manager, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400001

The Manager, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051

Company Symbol: HARDWYN

Scrip Code: 541276

Subject: Newspaper advertisement titled statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and 9 Months ended on 31st December 2023

#### Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement published on 16<sup>th</sup> February, 2024, in "Financial Express" in English language Newspaper and "Jansatta" in Hindi (Regional) language Newspaper regarding Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and 9 months ended 31<sup>st</sup> December, 2023 which were considered, approved and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 15<sup>th</sup> February, 2024.

Further, in terms of Regulation 46 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the aforesaid financial results are also uploaded on the website of the Company <a href="http://www.hardwyn.com/">http://www.hardwyn.com/</a>

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For and on behalf of Hardwyn India Limited

RUBALJEET SINGH SAYAL

Digitally signed by RUBALJEET SINGH SAYAL Date: 2024.02.17 11:09:50

Rubaljeet Singh Sayal Managing Director & CFO

DIN: 00280624

**Encl: As above** 

#### (A Joint Venture of SAIL & DVC) Hall No.: M-01, Old Administrative Building Ispat Bhavan, Bokaro Steel City-827001(Jharkhand) CIN No.: U48300DL2001PTC112074 NOTICE INVITING TENDER Ref No.: BPSCL/MM/23-24/Paper Advt./385 Dated 16/02/2024 NIT No. / Date **BOD & Time** BPSCL/MM/23-24/PUR-201/NIT-1406 dt.12/02/2024 Supply, Erection, Testing & Commissioning of Nitrogen Injection Fire Protection System. 12/03/2024, 12.15 H BPSCL/MM/23-24/PUR-195/NIT-1407 dt. 12/02/2024 Procurement of Ceramic Lined Bends & Straight Pipes 3. BPSCL/MM/23-24/PUR-185/NIT-1408 dt. 15/02/2024 Procurement of Carbon Monoxide Gas Leakage Warning System & Data Logging System. 15/03/2024, 12:15 Hrs. For Tender documents kindly visit Website: www.bpscl.com Bidders are requested to visit website regularly.

KERNEX MICROSYSTEMS (INDIA) LTD.

Extract of Un-Audited Standalone Financial Results For the

Quarter and Nine Months ended 31st December, 2023.

Particulars

Total Income from Operations

Net Profit / (Loss) for the period

(before Tax, Exceptional and/ or

Net Profit / (Loss) for the period

Net Profit / (Loss) for the period

the period (after tax) and other

(Face value of Rs.10/- each)

Earnings Per Share (before

held on 14th February '2024

Reserve (excluding Revaluation

Reserve) as shown in the Audited

Balance Sheet of the previous year

extraordinary items) (of Rs.10/- each)

after tax (after Exceptional and/ or

Total Comprehensive income for the

period (Comprising Profit/ (Loss) for

comprehensive income (after tax)]

before tax (after Exceptional and/ or

Extraordinary items)

Extraordinary items)

Extraordinary items)

Equity share capital

a. Basic

b. Diluted

Place: Hyderabad

Date : 14-02-2024

**GE T&D India Limited** 

(CIN: L31102DL1957PLC193993)

Email: anupriya.garg@ge.com

Members are hereby informed that:

9:00 A.M. (IST);

e-voting;

the Postal Ballot Notice.

and transparent manner.

pallavi@nsdl.com.

process as under:

www.evoting.nsdl.com.

financialexp.epap.in

India Limited.

from the website of the Company.

700019, Tel No.: 033 4011 6728/6700/6739.

email address of the RTA: rta@cbmsl.com.

Notes:

(AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED COMPANY CIN:L30007TG1991PLC013211)

Regd. Office: Plot No.38 (part) to 41, Hardware Park,

TSIIC Layout, Survey No.1/1, Kancha Imarat, Raviryal Village,

Maheswaram Mandal, Ranga Reddy Dist, Hyderabad - 501 510.

31-12-2023

Un-Audited

857.14

(345.05)

(345.05)

(350.49)

(350.49)

1.675.94

(2.24)

(2.24)

By order of the Board of Directors

For KERNEX MICROSYSTEMS (INDIA) LIMITED

Sd/-

M.B. NARAYANA RAJU

Whole-Time Director

DIN - 07993925

The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee

2. The above is an extract of detailed format of Quarterly/Annual Financia

www.nseindia.com and on Company' website: www.kernex.in

Regd. Off.: A-18, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase II,

NOTICE OF POSTAL BALLOT

FOR THE ATTENTION OF THE MEMBERS OF THE COMPANY

Members are hereby informed that pursuant to and in compliance with the

provisions of Section 110 read with Section 108 of the Companies Act

2013 ("Act"), Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and any other applicable provisions of the Act

relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA")

Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Secretarial

Standards on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company

Secretaries of India ("ICSI"), and other applicable laws and regulations, as

amended from time to time (including any statutory modification(s) or re-

enactment thereof for the time being in force), approval of the Members of

GE T&D India Limited ("the Company") is being sought for the ordinary and

special resolution, mentioned in the Postal Ballot Notice, by way of Postal

Ballot through remote e-voting process only ('remote e-voting') through

(a) In compliance with the above-mentioned provisions and MCA circulars,

the Company has completed dispatch of electronic copies of Postal

Ballot Notice ("Notice") along with Explanatory Statement, on Friday,

February 16, 2024 through electronic mode to all those Members of the

Company whose e-mail addresses are registered with the Company,

(b) The e-voting period commence on Saturday, February 17, 2024, at

(c) The e-voting period ends on Sunday, March 17, 2024, at 5:00 P.M. (IST)

(d) Only those Members whose names are recorded in the Register of

Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners

maintained by the Depository Participant(s) as on the Cut-off date i.e

Friday, February 9, 2024, are entitled to cast their votes by remote

(e) Detailed instructions for remote e-voting are provided in the notes of

f) The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Vineet I

Chaudhary Practicing Company Secretary (Membership No. F5327)

and failing him Mr. Mohit K Dixit, Practicing Company Secretary

(Membership No. F12361) of M/s VKC & Associates, Practising

Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the remote

e-voting process and casting vote through the e-voting system in a fair

(g) Members who have not received Postal Ballot Notice may write to

(h) In case of any queries with respect to voting by electronic means, you

may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and

e-voting user manual for Shareholders available at the download

section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990

and 1800 224 430 or send a request at evoting@nsdl.com

(i) Contact Detail for addressing e-voting related queries/ grievances, if

any, are Mr. Sujit Sengupta, Senior Manager & Compliance Officer, C B

Management Services Private Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata

Members who have not registered their e-mail addresses so far with the

Company or Depository Participants, may complete the e-mail registration

For Members holding shares in physical form: In compliance with SEB

Circulars dated November 3, 2021, December 14, 2021, and March

2023 please send copy of signed Form ISR-1 mentioning your name,

folio number, complete address, email address and telephone number

to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN and

any document (such as Driving License, Passport, Bank Statement

AADHAAR) supporting the registered address of the Member, by post

to the Company's Registrars and Share Transfer Agents: CB

Management Services (P) Ltd, Unit: GET&D India Ltd, P-22 Bondel Road,

Kolkata, West Bengal - 700019. The Members can also forward a

digitally signed copy of Form ISR-1 with supporting documents at the

For the Members holding shares in demat form, please update your

A copy of this Postal Ballot Notice is also available in the Reports &

Financials Section of the website of the Company: https://www.ge.com/in

ge-td-india-limited/reports-financials, the relevant section of the website

of BSE: www.bseindia.com and NSE: www.nseindia.com on which the

Equity Shares of the Company are listed, and on the website of NSDL

The results of postal ballot will be announced on or before Tuesday, March

19, 2024 and shall be placed along with Scrutinizer's Report on the website

of the Company at https://www.ge.com/in/ge-td-india-limited/reports-

financials and on the website of NSDL. The results shall also be

mmediately forwarded to the BSE Limited and National Stock Exchange of

email address through your respective Depository Participant/s.

rta@cbmsl.com and obtain the same over email or download the same

Depositories as on Friday, February 9, 2024 ("Cut-offdate").

The e-Voting module shall be disabled for voting there after;

platform provided by National Securities Depositories Limited (NSDL):

New Delhi - 110020 Tel. No.: 91-11-4161 0660

Website: http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited

and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting

Results filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of SEBI (Listing

and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of

the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange

website i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and NSE Limited at

Bokaro Power Supply Co. (P) Ltd.

(Rs. in Lakhs)

31-3-2023

Audited

(1,938.06)

(1,938.06)

(1,985.71)

(1,986.59)

1.545.94

(14.67)

(14.67)

200.36

Standalone

Quarter Ended 9 Months Ended Year Ended

31-12-2023

Un-Audited

(807.03)

(807.03)

(863.07)

(863.07)

1,675.94

(5.52)

(5.52)

1,035.83

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers before sending any monie or entering into an agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

CONSTRUCTION OF 9M DIA WELL CUM PUMP HOUSE, SUPPLY AND LAYING OF 600 mm DI RAW WATER PUMPING MAIN, SUPPLY AND ERECTION OF 400 KVA TRANSFORMER RAW WATER PUMP SET ETC at Thopilkadavu-General Civil Work EMD: Rs. 5,00,000/- Tender fee: Rs. 19518 Last Date for submitting Tender: 05-03-2024 03:00:pm Phone: 0484-2360645 Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in **Superintending Engineer** 

PH Circle KWA-JB-GL-6-2369-2023-24 Kochi



## Tamilnadu Petroproducts Limited

Regd.Office: Manali Express Highway, Manali, Chennai 600 068. CIN: L23200TN1984PLC010931 Website: www.tnpetro.com E-mail: secy-legal@tnpetro.com Telefax: 044-25945588 / 69185588

#### NOTICE TO SHAREHOLDERS REQUEST TO REGISTER E-MAIL ID TO RECEIVE THE NOTICE OF POSTAL BALLOT

Pursuant to the General Circular No. 09/2023 dated 25" September 2023 read with General Circular No.02/2022 and 20/2020 dated 5th May 2022 and 5th May 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, it is hereby informed that in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the aforesaid Circulars, the Company proposes to send Notice for obtaining the consent of members for certain matters through Postal Ballot.

As mandated in the aforesaid Circulars, the Notice of the Postal Ballot will be sent only by electronic means to the shareholders who have registered their e-mail ids with the Company or the Depository Participants. These will also be made available in the Website of the Company at www.tnpetro.com and the Stock Exchanges at www.bseindia.com & www.nseindia.com and also in the website of the e-Voting service provider.

For the attention of Members who are holding shares in physical form and who have not registered their e-mail ids and other particulars with the Company

- Investors are requested to submit their requests online or through e-mail, as far as possible to avoid handling of physical documents.
- You may visit <a href="https://investors.cameoindia.com/">https://investors.cameoindia.com/</a> and follow the guidance for submission of the information online for registering the e-mail, mobile number and other
- Reguest for registration/change of the information (viz., change in address, Bank Details, Nominee particulars and contact nos, as and when arises) shall be submitted in Form ISR-1 prescribed by SEBI (which is available in the website of the Company under the following link http://tnpetro.com/investor-service-requests-physical-shares/) to the RTA by sending an email with the scanned copy of the Form and other required documents to kyc@cameoindia.com.
- Alternatively, the aforesaid information may be sent by post or courier to the RTA viz. Cameo Corporate Services Limited, Unit: TPL, Subramanian Building, 1, Club House Road, Chennai - 600002, Ph:044-28460390/40020700.

Persons holding shares in demat mode may approach their Depository Participant (DP) for the above purpose. Also, it may be ensured that the option to receive the Notice and other communications by e-mail has been duly exercised in respect of such holdings.

We thank our Members for supporting the "Green initiative" in Corporate Governance undertaken by the Ministry of Corporate Affairs and the Company. We request our members to please note that all future communication would be sent in electronic mode to the registered email address. Therefore, please ensure to inform any change in your e-mail address to your Depository participant (in case of shares held in demat mode) or the Company/RTA (in case of shares held in physical mode).

Detailed instructions for casting of votes through remote e-Voting will be made available in the Notice of the Postal Ballot.

This public notice is being published in advance to facilitate the Members to register or change their contact details and other particulars. Members may kindly avail the opportunity and provide the information at the earliest so that the Company is able to send the notices and other information promptly. For any further clarifications, Members may contact the RTA as specified above.

By Order of the Board For Tamilnadu Petroproducts Limited

Place: Chennai Date: 17.02.2024

Company Secretary

Sangeetha Sekar

Note: Shareholders are requested to promptly update their Address and Bank Account details through Company/RTA/Depository Participant, for claiming dividends.

#### Response Informatics Limited CIN: L72200TG1996PLC025871

Regd. Office: 3rd Floor, 1-89/3/4, Raghuma Towers, Hi-Tech City Road, Madhapur, Shaikpet, Hyderabad, Telangana-500081. lebsite: https://www.responseinformaticsltd.com, Email: cs@responseinformatics.com NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, CUT-OFF DATE AND E-VOTING INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that the Extraordinary General Meeting (EGM) of the members or Response Informatics Limited ("the Company") will be held on Monday, the 11th day of March 2024 at 04:30 P.M. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act")and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read withall applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA") and the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the businesses set out in the Notice of EGM. Members attending the EGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the relevant circulars, the notice of the EGM has been sent on Friday, 16th February 2024 through electronic mode to those Members whose Email IDs are registered with the Registrar & Transfer Agent (RTA) of the Company or Depositories. The aforesaid documents are also on the website of the Company at https://www.responseinformaticsltd.com, the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.cdslindia.com and website of the stock exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com. Instructions for remote e-voting and e-voting during EGM:

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at EGM by electronic means ('e-voting"). Members may cast their votes remotely, through the electronic voting system of CDSL ('remote e-voting') on the dates mentioned herein below. Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the EGM ("Insta Poll") and members attending the EGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the EGM through Insta Poll. The company has engaged the services of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the agency to provide e-voting facility

Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting

have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the EGM through VC/OAVM. The manner of remote e-voting and voting by Insta Poll by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the EGM. The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting: 9:00 a.m. on Friday, 8th February 2024 End of remote e-voting: 5:00 p.m. on Sunday, 10th February 2024

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by CDSL upon expiry of the aforesaid period. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Monday, 4thMarch 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the EGM and voting through Insta Poll. Manner of registering/updating email addresses is below:

a) Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their email address with the Company are requested to register/update the same by writing to the Company's RTA, Aarthi Consultants Private Limitedwith details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at info@aarthiconsultants.com.

b) Members holding shares in dematerialised mode who have not registered their e-mail addresses with their Depository Participant(s) (DPs) are requested to register/update their email addresses with the DPs with whom they maintain their demat accounts.

c) After due verification, CDSL will forward your e-voting login credentials to your registered email address Any person who becomes a member of the company after dispatch of the Notice of the EGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User Id and password in the manner as provided in the Notice of the EGM, which is available on company's website and CDSL's website. Such members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of EGM.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the EGM. The procedure for remote e-voting is available in the Notice of EGM. In case of any query

relating to e-voting, members may referto the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mil Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or call at toll free no 1800 22 55 33 or contact Company's RTA, Aarthi Consultants Private Limited, 1-2-285, Domalguda Hyderabad-500029Ph.No.: 040-27638111/ 27634445, email: info@aarthiconsultants.com. For RESPONSE INFORMATICS LIMITED

Place: Hyderabad Date: 17.02.2024

Subramaniyam Seetha Raman Managing Director, DIN:06364310



## RDB REALTY & INFRASTRUCTURE LTD.

CIN: L16003WB2006PLC110039 Regd. Office: Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-10 , Kolkata-700001, Phone: 033-4450 0500 Email id- secretarial@rdbindia.com; website- www.rdbindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to Section 108 &110 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amendedfrom time to time (the "Rules"), General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 22/2020 dated 15th June, 2020, 33/2020 dated 28th September 2020, 39/2020 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23rd June, 2021 20/2021 dated 8th December, 2021, 3/2022 dated 5th May, 2022, 11/2022 dated 28th December, 2022 and 09/2023 dated 25th September, 2023 and other related circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA" the "MCA Circulars"), Regulation 17(IC) and 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (the "Listing Regulations"), Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2") and other applicable laws and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof), if any, RDB Realty & Infrastructure Limited ("the Company") is seeking approval from its Members through Postal Ballot by way of remote electronic voting ("E-Voting") for passing of Resolutions asset out in the Postal Ballot Notice dated 8th February, 2024. In terms of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder and in

accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs for holding general meeting/conducting postal ballot process through e-voting vide aforementioned general circulars issued in connection, the Postal Ballot notice along with the instructions regarding e-voting has been sent only by email on 16th February, 2024 to all the shareholders of the Company whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on Friday 09th February, 2024 ("Cut-Off Date") received from the Depositories and whose email address is registered with the Company / the Depository participant(s). Members are required tocommunicate their assent or dissent through remote e-voting system only.

The Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company at https://www.rdbindia.com/announcement-notice/, on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com andCSE Limited at www.cse-india.com and on the website of National Securities Depository Limited "NSDL") at https://www.evoting.nsdl.com.

Members whose email addresses are not registered/updated can register/update the same in the following manner to receive the Postal Ballot Notice and other future communications of the Company

- Members holding shares in Physical mode and who have not registered. updated their email addresses, mobile number, bank details, postal address with PIN code etc. are requested to register/update the same by submitting duly filled in Form ISR-1 with supporting documents to the Company or to Niche Technologies Pvt Ltd, the Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company. Form ISR-1 can be downloaded from the following link: https://nichetechpl.com/wp-content/uploads/2023/03/Form\_ISR-1.pdf.
- Members holding shares in Dematerialised mode and who have not registered/updated their email addresses/mobile number are requested to register/update the same with their respective Depository Participants. As required, the Company is offering facility to the members to exercise their

right to vote on business contained in the postal ballot notice by e-voting, through platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The Company has appointed Ms. Prachi Todi, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot Process through e-voting in a fair and transparent manner

The voting rights of Members shall be in proportion to their shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, 9th February, 2024. being the cut-off date. Any person who is not a member as on the said cut- off date should treat this Notice for information purpose only. Members are hereby informed that business as set out in the notice shall be

transacted only through remote e voting system. The voting period shall commence on Sunday, 18th February, 2024 (9.00 A.M) and shall end on Monday,18th March, 2024 (5.00 P.M.). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting and members shall not be allowed to vote thereafter. The detailed procedure /instruction for e-voting are contained in the Notice of The results of the e-voting along with the Scrutinizer's Report shall be

communicated within two working days from the conclusion of e-voting to the BSE Limited ("BSE") and Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE") (together "Stock Exchanges") where the shares of the Company are listed and will also be displayed on the Company's website at https://www.rdbindia.comas well as on website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at https:// www.evoting.nsdl.com.The date of declaration of the result of Postal Ballot by way of e-voting shall be deemed to be the date of passing of resolutions mentioned in

For any queries/grievances relating to e-voting may be addressed to NSDL, please contact Mr. VikramJha, Assistant Manager, NSDL or Ms. PallaviMhatre, Manager NSDL at the designated email ID - evoting@nsdl.co.in, pallavid@nsdl.co.in or call on (033) 22814662, Mr. Ashok Sen, Manager - EDP, Niche Technologies Pvt. Ltd or call on (033) 2280 6616 or email nichetechpl@nichetechpl.com By order of the Board

Priyarup Mukherjee Place: Kolkata Company Secretary & Compliance Office Date: 16.02.2024

## ntc industries limited

CIN: L70109WB1991PLC053562 Regd.Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata-700 058, Ph: +91 7595046813, e-mail id: investors@ntcind.com, Website: www.ntcind.com

INFORMATION REGARDING POSTAL BALLOT Members are hereby informed that in compliance with the Section 108, 110

and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 3/2022, 11/2022, 09/2023 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 15th June, 2020, 28th September, 2020, 31st December, 2020, 23rd June, 2021,8th December, 2021, 5th May, 2022, 28th December, 2022 and 25th September, 2023 respectively and other relevant circular issued by the Ministry of Corporate Affairs in this regard, Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India (the 'SS-2'), in compliance with Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations') and other applicable provisions of the Act, Rules, Circulars and Notifications issued thereunder (including any statutory modifications or re-enactments thereof for the time being in force and as amended from time to time) the Company will be seeking the approval of the shareholders proposed to be passed through postal ballot through remote e-voting for following businesses set out in the Postal Ballot Notice (the 'Notice') in a detailed manner:

- To appoint Mr. Avijit Maity (DIN:10456050) as a Managing Director of the Company
- To appoint Mr. Sharad Kumar Bachhawat (DIN: 05161130) as an Independent Director of the Company
- To appoint Mr. PallabBhadra (DIN:10456082) as an Independent Director of the Company. To appoint Mr. Binod Kumar Anchalia (DIN:10480259) as an
- Independent Director of the Company.

To consider and issue equity shares of the company on a preferential allotment basis by virtue of shares swap method.

Further, in compliance with the above, the Notice of the Postal Ballot will be sent only by electronic mode to those members whose email address is registered with Depository Participant(s) / Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') / the Company. The communication of assent or dissent of the Members would only take place through the remote e-voting. Members are requested to carefully read the instructions for remote e-voting before casting their votes as mentioned in the Notice. The physical copies of the Notice along with the postal ballot form & postage prepaid self-addressed business reply envelope will not be sent to the Members. Members may note that the Notice will also be available on the Company's website atwww.ntcind.comand on the website ofthe Stock Exchanges, where the equity shares of the Company are listed, i.e., BSE at https:// www.bseindia.com/and of CSE at websitewww.cse-india.com.

The Company has availed the services of National Securities Depository Limited for providing the e-voting facility by way of Postal Ballot by electronic means only. The Company is providing remote e-voting facility (the 'remote e-voting') as per the provisions of Sec 108 of the Act, to all its members holding shares as on the cut-off date i.e., Friday, 9th February, 2024 to cast their votes on all resolutions set out in the Notice by way of Postal ballot through e-voting system. The detailed procedure of casting votes through remote e-voting /e-voting for the members holding shares in physical mode, dematerialised mode and for members who have not registered their email address is provided in the Notice.

#### Manner of registering / updating email addresses:

Notice of the Postal Ballot and/or login details for the Postal Ballot, by sending scanned copy of the following documents by email toinvestors@ntcind.comor nichetechpl@nichetechpl.com: a a signed request letter mentioning your name, folio number and

Members holding shares in physical form who have not registered their email

addresses withthe Company/ Depository Participant(s) / RTA can obtain

complete address; self-attested scanned copy of the PAN Card; and

self-attested scanned copy of any document (such as Aadhaar Card,

Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company. Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered

updated their email addresses with the Depository Participants are requested to register/update their email addresses with the Depository Participants with whom theymaintain their demat accounts. The login credentials for casting votes through remote e-voting and e-voting shall be made available to the Shareholders through email. In case of any gueries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs)

e-voting user manual for Shareholders available at the download section of

www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. PallaviMhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.co.in.

For ntc industries limited

94.50%

Anushree Chowdhury Dated: 16th February, 2024 Company Secretary & Compliance Officer

#### **UMA PROPERTIES & TRADERS LIMITED** CIN: L51909WB1980PLC032591

Registered Office: Delta House, 10th Floor, 4, Government Place North, Kolkata - 700 001; Phone: +91 (033) 2248 6741; E-mail: umapro1980@gmail.com; Website: www.umaproperties.com

Place: Kolkata

RESULT OF POSTAL BALLOT / E-VOTING OF UMA PROPERTIES & TRADERS LIMITED Pursuant to the provisions of Section 108, 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended,

the approval of the Shareholders was sought by means of Postal Ballot or, alternatively, through remote e-voting facility for Voluntary Delisting of Equity Shares of Uma Properties & Traders Limited ("the Company") from The Calcutta Stock Exchange Limited i.e., the only Stock Exchange where the equity shares of the Company are presently listed, in terms of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulation, 2021, as amended ("SEBI Delisting Regulations") as specified in the Postal Ballot Notice dated January 8, 2024 read with Special Resolution and Explanatory Statement attached Mr. Suresh Kumar Hada, Whole time Director of the Company, has announced the results of the Postal Ballot on the basis of the Report dated February 16

2024 submitted by the Scrutinizer, CS Mohammad Tausif, Practicing Company Secretaries (Membership No. F11959, CP No.: 18170) of M/s. of Tausif & Associates. The results of the Postal Ballot / e-voting as follows were announced at the Registered Office of the Company on February 16, 2024: A summary of the Postal Ballot votes received is given below : SI. No. Votes casted By Physical Ballot By Electronic Voting Total No. of Valid Votes % of votes polled on outstanding shares\*

	Tota	1 100	20	1,88,899	1,88,999			94.50%	
Resolution (Ordinary/S		Special Resolution i.e., the only stoo	on for voluntary ck exchange w	delisting of the here the equity	e equity shares of the shares of the Comp	Company cany are pr	from the C esently lis	Calcutta Stock Extend.	change Limited
	romoter/ Promoter interested in the esolution?	Yes							
(	Category	Mode of voting	No. of Shares held	No. of votes polled	% of votes polled on out-standing shares	No. of votes in favour	No. of votes against	% of votes in favour on votes polled	% of votes against on votes polled
Promoter a	and promoter Group	Physical Ballot	1,99,649	<del>-</del>		-	7.2		_
		E-voting		1,88,899	94.62%	1,88,899	-	100.00%	-
		Sub Total (A)	1,99,649	1,88,889	94.62%	1,88,899	172	100.00%	
Public-Institutions	Institutions	Physical Ballot		_			( PE	2	23
		E-voting	1	3-0		-	10-	-	-
	3	Sub Total (B)	-	-	-	-	-	_	_
Public -No	-Non Institutions	Physical Ballot	351	100	28.49%	100	12	100.00%	
		E-voting	9888830		-	-	8 <del>-</del>		198

\* The total no. of shares of the Company are 2,00,000 equity shares.

Sub Total (C)

TOTAL

351

2,00,000

Favor

Against

2.

Place : Kolkata

Date : February 16, 2024

Date: 15.02.2024

Place: Delhi

The terms "Public Shareholders" and "Promoter Shareholders" have the same meaning as assigned to them under the SEBI Delisting Regulations The total valid votes cast by the Public Shareholders in favor of the proposed resolution are more than two times of the valid votes cast by the Public

28.49%

94.50%

100

100

shareholders as required under Delisting Regulations. Accordingly, the Special Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated January 8, 2024 was declared as approved and passed with requisite majority as required under regulation 8(1)(b) of the SEBI Delisting Regulations.

100

1,88,999

By Order of the Board For Uma Properties & Traders Limited

100.00%

100.00%

Suresh Kumar Hada Whole time Director DIN: 01337464

HARDWYN INDIA LIMITED **Hardwyn** Registered Office: B-101, Phase-1, Mayapuri, New Delhi, South West Delhi - 110064 CIN: L74990DL2017PLC324826 | Phone No. +91 9212373715; Email: info@hardwyn.com Website: www.hardwyn.com EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2023 (Rs. In Lakhs) Current/Quarter Year to date Figures/ Corresponding 3 months No. **Particulars** Year ending Previous Year ending ended in the previous year 31.12.2023 (Unaudited) 31.12.2023 (Unaudited) 31.12.2022 (Unaudited) Total Income from Operations 3997.03 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax. Exceptional and/or Extraordinary items). 606.85 972.03 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 972.03 606.85 4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 431.12 690.38 5. Equity Share Capital (Face Value Rs 1- each) 3488.81 3488.81 6. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 7. Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) -0.12 0.20 1. Basic: 2. Diluted: 0.12 0.20 Notes: The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements

Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & year to date financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the company's website

The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules

thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and SEBI circular dated 05th July, 2016. Standalone Results:

Year to date Figures/ Previous | Corresponding 3 months ended Current/Quarter Year ending Particulars No. in the previous year Year ending 31.12.2023 (Unaudited) 31.12.2023 (Unaudited) 31.12.2022 (Unaudited) 3513.53 9891.68 3472.98 1. Revenue 579.20 Profit before tax 452.56 911.38 Net Profit for the period 410.69 645.68 326.60 Other comprehensive Income/(losses) Total comprehensive Income 410.69 645.68 326.60


The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on 15th February, 2024. These results have been subjected to limited review by statutory auditors who have expressed an unqualified opinion.

New Delhi

Hardwyn India Limited Rubaljeet Singh Sayal Managing Director & CFO DIN: 00280624

For and on behalf of

for GE T&D India Limited Sd/-Place : Noida **Anupriya Garg** Date: February 16, 2024



By Order of the Board







# इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

सरफेसी एक्ट २००२ के अन्तर्गत ई-नीलामी दिनांक २५.०३.२०२४

क्षेत्रीय कार्यालयः

भवन संख्या 80, प्रथम तल, बीएसएनएल कार्यालय के पास, तेजगढ़ी चौराहा,

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुननिर्माण एवं हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (नं. 54 / 2002) के अन्तर्गत बैंक को प्रभारित अचल सम्पत्तियों की बिक्री। जबकि इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किया गया तथा उसके बाद निम्नांकित तथा उसके बाद निम्नांकित प्रभारित / बन्धक सम्पत्ति को उक्त अधिनियम के तहल सम्पत्ति का कब्जा ले लिया गया था और यहां नीचे दर्शायी गयी सम्पत्ति की बिक्री हेतू "जहाँ है जैसा है" बिना किसी दायित्व के जैसा है जो है के आधार पर" उक्त

क्रम सं.	शाखा का नाम	ऋणी का नाम	बैंक बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	(E.M.D.) राशि	संपर्क के लिए शाखा का विवरण
1.	मार्ग, वलॉक टॉवर, सहारनपुर	<ol> <li>श्री श्याम लाल वर्मा पुत्र धर्म दास, मकान नं. 8/एससी/447, दार आबादी सिद्धार्थ कॉलोनी, वेक दारा अली स्वाद बैरून, चिलकाना रोड, सहारनपुर, यूपी-247001 (ऋणकर्ता)</li> <li>श्रीमती शशि बाला पत्नी सोमपाल, चिलकाना रोड, जैन मंदिर के पास, न्यू मदनपुरी कॉलोनी, सहारनपुर, यूपी-247001 (गारंटर)</li> </ol>	रू० 9,13,349.00 दिनांक 09.02.2024 तक	लॉट 1.0—संपत्ति के सभी भाग और पार्सल निर्मित भूमि और भवन, एमपीएल नंबर—8 / एससी / 447, खसरा नंबर—407, दार आबादी सिद्धार्थ कॉलोनी, वेक दारा अली स्वाद बैरून, सहारनपुर, स्वामित्व श्री श्याम लाल वर्मा पुत्र धर्म दास, क्षेत्रफल 62.66 वर्गगज।	भूमि और भवनः रू० 13,77,000.00 (कर सहित)	भूमि और भवनः रू० 1,37,700.00 (बोली गुणांक रु. 50000)	इंडियन ओवरसीज बैंक भगत सिंह मार्ग, क्लॉक टॉवर, सहारनपुर मेन-ब्रांच, सहारनपुर ई-मेल- iob0434@iob.in
	मार्ग, वलॉक टॉवर, सहारनपुर मेन-ग्रांच,	1. मैसर्स अली वुढ हैं ढीक्राफ्ट्स, प्रोप- श्री शौकत अली, 12/1776, सराय गरीबा, ढाँ. पन्ना लाल गली, पुरानी मंढी, सहारनपुर यूपी – 247001 (ऋणकर्ता) ऋणकर्ता:—श्री शौकत अली पुत्र मतलूब अहमद, 12/1776, सराय गरीबा, ढाँ पन्ना लाल गली, पुरानी मंढी, सहारनपुर यूपी –247001 (ऋणकर्ता) श्रीमती किश्वर जहां पत्नी मतलूब अहमद, 12/1776, सराय गरीबा, ढाँ. पन्ना लाल गली, पुरानी मंढी, सहारनपुर यूपी –247001 (गारंटर) श्री लियाकत अली पुत्र मतलूब अहमद, 12/1776, सराय गरीबा, ढाँ पन्ना लाल गली, पुरानी मंढी, सहारनपुर यूपी –247001 (गारंटर)	दिनांक 09.02.2024 तक	लॉट—1.0 — आवासीय भवन, 12/1776 का साम्यिक बंधक, सराय गरीवा, डॉ. पन्ना लाल गली, पुरानी मंडी, सहारनपुर, स्वामिनी श्रीमती किश्वर जहां पत्नी मतलूब अहमद क्षेत्रफल 134.99 वर्ग गज।	मूमि और भवनः रू0 32,77,000.00 (कर सहित)	भूमि और भवनः रू० 3,27,700.00 (बोली गुणांक रु. 50000)	इंडियन ओवरसीज बैंक भगत सिंह मार्ग, क्लॉक टॉवर, सहारनपुर मेन-ब्रांच, सहारनपुर ई-मेल- iob0434@iob.in

अधिनियम की धारा 13(4) में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेब पोर्टल (https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi). द्वारा करायी जायेगी।

नियम व शर्ते :— ई—नीलामी की तिथिः 25.03.2024 ई—नीलामी का समय प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक बिक्री के दस मिनट तक ऑटो विस्तार के साथ। ईएमडी 23.03.2024 शाम 5.00 बजे तक जमा कि जा सकती है

1. ई–नीलामी "जहाँ है जैसा है" बिना किसी दायित्व के जैसा है जो है के आधार पर" की जा रही है। **प्रतीकात्मक अधिकार के तहत सभी संपत्ति।** 2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार किसी भी सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं हैं। स्थानीय स्वशासन की बकाया राशि (सम्पत्ति टैक्स, पानी, सीवेज, विधृत बिल आदि):— बोली लगाने वाले द्वारा वहन किया जायेगा हालांकि प्रत्याशित बोलीदाता को अपनी बोली जमा करवाने से पूर्व ऋणभारों, नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों तथा इस सम्पत्ति के संबंध में दावे / अधिकार / बकाया के संबंध व स्वयं स्वतंत्र जांच करवा लें। बोली जमा करवाने से पूर्व सम्पत्ति व विनिर्देशन के बारे में स्वयं को सतुंध्ट करने तथा निरीक्षण करने की जिम्मेवारी बोलीदारों की होगी। सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 21.03.2024 से 22.03.2024 को प्रात: 11:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे के बीच (बैंक से पूर्व नियुक्ति के साथ) कर सकते हैं।

3. इच्छक बोलीदाता जिन्होंने ई.एम.डी. जमा की है, लोगिन आई.डी., पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोड करने, बिंड जमा करने तथा ई—ऑक्शन पर पर ऑनलाईन बिडिंग हेतु इच्छक बोलीदाता, सर्विस प्रदाता (https://www.mstcecommerce.com/auctionhome.ibapi) नीलामी की विस्तृत विवरण नियम व शर्तों के लिये हमारी वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com/ auctionhome.ibapi पर देखें

स्थान - सहारनपुर

इसे U/r 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 के अन्तर्गत तिथि को की जा रही उक्त ई-ऑक्शन बिक्री के संबंध में निम्नलिखित कथित ऋण के अन्तर्गत ऋणियों / गारंटरों को 30 दिन का वैधानिक बिक्री सचना

दिनांक:- 16.02.2024

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR

DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

### PUBLIC ANNOUNCEMENT





## GALA PRECISION ENGINEERING LIMITED

Our Company was incorporated as 'Gala Precision Engineering Private Limited' a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to the certificate of incorporation issued by the RoC on February 23, 2009. Our Company entered into a Business Transfer Agreement dated May 26, 2009 to transfer the business operations from Gala Precision Technology Private Limited. The name of our Company was subsequently changed to 'Gala Precision Engineering Limited', upon conversion into a public company, pursuant to a board resolution dated September 5, 2023 and a shareholder resolution dated October 3, 2023, and a fresh certificate of change of name was issued on October 25. 2023 by the RoC. For details of the change in the name and the registered office address of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 228 of the Draft Red Herring Prospectus dated February 14, 2024, Draft Red Herring Prospectus was filed with the Securities and Exchange Board of India on February 16, 2024 ("SEBI"). Corporate Identity Number: U29268MH2009PLC190522

Registered and Corporate Office: A-801, 8th Floor, Thane One DIL Complex, Ghodbunder Road Majiwade, Thane (west), Maharashtra, India 400610 Contact Person: Pooja Ladha, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: + 91 22-6930 9224

#### E-mail: investor.relations@galagroup.com; Website: www.galagroup.com OUR PROMOTERS: KIRIT VISHANJI GALA AND SMEET KIRIT GALA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 3,174,416 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO 2,558,416 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [ • ] MILLION BY OUR COMPANY (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 616,000 EQUITY SHARES (THE "OFFERED SHARES") AGGREGATING UP TO ₹ [.] MILLION COMPRISING AN OFFER FOR SALE OF UP TO 385,200 EQUITY SHARES BY VISHANJI HARSHI GALA AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION, UP TO 58,600 EQUITY SHARES BY KIRIT VISHANJI GALA(HUF) AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION, UP TO 50,000 EQUITY SHARES BY NAYNA GALA AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION, UP TO 40,000 EQUITY SHARES BY SATISH KOTWANI\* AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, UP TO 31,400 EQUITY SHARES BY HEMLATA DHIRAJ SHAH\* AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, UP TO 28,000 EQUITY SHARES BY DHIRAJ NANCHAND SHAH\* AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION, UP TO 12,800 EQUITY SHARES BY URMIL DHIRAJ SHAH\* AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION, AND UP TO 10,000 EQUITY SHARES BY RUPA SUNIL MEHTA AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION (THE "SELLING SHAREHOLDERS", AND SUCH EQUITY SHARES OFFERED BY THE SELLING SHAREHOLDERS, THE "OFFERED SHARES") (SUCH OFFER FOR SALE BY THE SELLING SHAREHOLDERS, THE "OFFER FOR SALE" AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, "THE OFFER"), THE OFFER WILL CONSTITUTE [●] % OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION (CONSTITUTING UP TO [●]% OF THE POST OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL), FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% AND [\*]%, RESPECTIVELY, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, OUR COMPANY, AND THE SELLING SHAREHOLDERS, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER, MAY OFFER A DISCOUNT OF UP TO [●]% (EQUIVALENT OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) TO THE OFFER PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING UNDER THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT").

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹ 10 EACH AND THE OFFER PRICE IS [ • ] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY, THE PROMOTER AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BRLM AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), [●] EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [.] EDITIONS OF [.] (A WIDELY CIRCULATED MARATHI DAILY NEWSPAPER, MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MAHARASHTRA WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID! OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR

REGULATIONS, AS AMENDED. \*Equity shares held jointly with a second shareholder

In case of any revision to the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, in consultation with the BRLM, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the

change on the website of the BRLM and at the terminals of the Syndicate Member(s) and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

This is an Offer in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR, read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process in terms of Regulation 6 (1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs" and such portion, the "QIB Portion"), provided that our Company, in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders ("Non-Institutional Portion") (of which one third of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size between ₹ 0.20 million up to ₹ 1 million and two-thirds of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size exceeding ₹ 1 million) and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other subcategory of Non-Institutional Portion, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are mandatorily required to participate in the Offer through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID in case of UPI Bidders using the UPI Mechanism, as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA Process. For further details, see "Offer Procedure" on page 426 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake initial public offering of its

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, the website of the Company at www.galagroup.com and the website of BRLM, i.e. PL Capital Markets Private Limited at www.plindia.com. Our Company hereby invites the members of the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of their comments to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by SEBI, and our Company and Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLM in relation to the Offer on or before 5 p.m. on the 21" day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and Bidders should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Bidders are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, Bidders must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have neither been recommended, nor approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the Bidders is invited to "Risk Factors" on page 33 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring prospectus ("RHP") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on the Stock

For details of the main objects of our Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 228 of the DRHP.

The liability of the members of our Company is limited. For details of the share capital, and capital structure of our Company, please see "Capital Structure" beginning on page 78 of

BOOK RUNNING LEAD MANAGER

연구 PL Capital

www.readwhere.com

PL Capital Markets Private Limited

3rd Floor, Sadhana House, 570, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 018, Maharashtra, India. Telephone: +91 22 6632 2222 Email: galaprecisionipo@plindia.com; Website: www.plindia.com Investor Grievance ID: grievance-mbd@plindia.com

Contact Person: Wincy Nadar/Ashwinikumar Chavan SEBI Registration Number: INM000011237

REGISTRAR TO THE ISSUE **LINK**Intime

Link Intime India Private Limited

C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra; Telephone: +91 22 4918 6200 E-mail: galaprecision.ipo@linkintime.co.in

Investor grievance e-mail: galaprecision.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in; Contact person: Shanti Gopalkrishnan SEBI registration number: INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For GALA PRECISION ENGINEERING LIMITED On behalf of the Board of Directors

Place: Thane Date: February 16, 2024

Equity Shares pursuant to the Offer and the DRHP which has been filed with the SEBI on February 16, 2024.

Pooja Ladha Company Secretary and Compliance Officer

GALA PRECISION ENGINEERING LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, is available on the website of the Company at www.galagroup.com and website of the BRLM, i.e. PL Capital Markets Private Limited at www.plindia.com. Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "Risk Factors" beginning on page 33 of the DRHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) within the United States to "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) in private transactions exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

CONCEPT

मेरठ -250005। फोन नं0 0121-2761701, 2761701, 2762124

## सम्पित्तयों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपर अभय चैंबर, जालोरी गेट, जोधपुर-342001 हॉलिडे होम माउंट आब् और उदयपुर ( राजस्थान ) के लिए बोलियाँ/प्रस्ताव आमंत्रण करता है।

रोस्ट्राट मीक और प्रविधा

Central Bank of India

सेंटल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर, हॉलिडे होम टाई-अप ( 2 या 3 कमरॉ (सइट के लिए) के लिए माउंट आब और उदयपुर (राजस्थान) में प्रतिष्ठित आतिथ्य प्रदाताओं, 3 सितारा होटलों / 3 सितारा सविधाओं वाले होटलों के उच्छक मालिकों पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों से दीर्घकालिक लीज के आधार पर उपयक्त परिसर ( न्युनतम 3 साल की लीज अवधि जिसे अगले 3 या 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है ) के लिए मुहरबंद

निविदाएं आमंत्रित करता है। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

प्रारूप हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर में भी उपलब्ध हैं और कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा शल्क रु. 2000/-( गैर-वापसीयोग्य ) और रुपये की बोली के लिए बयाना राशि 5000/- ( वापसी योग्य) डीडी के रूप में 'सेंटल बैंक ऑफ इंडिया जोधपुर'' के पक्ष में में देव बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। प्रस्ताव जमा करने की ऑतिम तिथि 26.02. 2024 शाम 5 बजे तक है।

स्थानः जोधपुर क्षेत्रीय प्रमुख विनांक: 16.02.2024 क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर

प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

हाडीवन इंडिया लिमिटेड Hardwyn **पंजीकृत कार्यालय**: बी-101, फेज-1, मायापुरी, नई दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली-110064 सीआईएन: L74990DL2017PLC324826 | दूरभाष : +91 9212373715 ई-मेल : info@hardwyn.com, वेबसाइट : www.hardwyn.com तिमाही वर्ष में संगत तिमाही गत वर्ष के आंकडे 31.12.2023 (अलेखापरीक्षित 31.12.2022 (अलेखापरीक्षित 3997.03 10904.70 606.85 972.03 606.85 972.03 431.12 690.38 3488.81 3488.81 1. बेसिक (रु. में) 0.12 0.20 2. डाइल्यूटेड (रु. में) 0.20

. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। तिमाही तथा वर्ष तक के वित्तीय परिणामों का विस्तृत विवरए स्टॉक एक्सचें की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट www.hardwyn.com पर उपलब्ध है।

. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के कारण निवल लाभ/हानि, कुल व्यापक आय या किसी अन्य प्रासंगिक वित्तीय मद पर प्रभाव का खुलासा फुटनोट के माध्यम से किया जाएगा।

. वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ('इंड एएस') के अनुसार और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (संशोधित) के विनियमन 33 और सेबी परिपः दिनांक 05 जुलाई, 2016 के संदर्भ में तैयार किए गए हैं।

1. स्टैंडअलोन परिणामः

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन						
सं.		समाप्त चालू∕ तिमाही वर्ष	वर्ष के अब तक⁄समाप्त गत वर्ष के आंकड़े	समाप्त गत वर्ष में संगत तिमाही				
		31.12.2023 ( अलेखापरीक्षित )	31.12.2023 ( अलेखापरीक्षित )	31.12.2022 (अलेखापरीक्षित)				
1.	राजस्व	3513.53	9891.68	3472.98				
2.	कर पूर्व लाभ	579.20	911.38	452.56				
3.	अवधि हेतु निवल लाभ	410.69	645.68	326.60				
4.	अन्य व्यापक आय/(हानि)		-					
5.	कुल व्यापक आय	410.69	645.68	326.60				

5. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा की गई है और लेखापरीक्षा समिति द्वारा निदेशक मंडल को अनुशंसित किया गया है और बाद में 15 फरवरी, 2024 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। इन परिणामों को वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन किया गया है जिन्होंने अनक्वालिफाइड विचार व्यक्त किया है।

हाईविन इंडिया लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से हस्ता./- रुबलजीत सिंह सयाल

दिनांक: 15.02.2024 प्रबंध निदेशक एवं सीएफओ स्थानः दिल्ली डीआईएनः 00280624

संस्ट्राट बीक आहर प्रतिया Central Bank of India

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(१) का प्रावधान देखें] वसुली विभाग क्षेत्रीय कार्यालय जालोरी गेट, जोधपुर अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित विशीय आरितयों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री सुवना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से वर्जदार(में) एवं जमानती( यों ) को सचना दी जाती है कि प्रतिभत लेनदार के पास बंधकरप्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्मत्ति, जिसका सांकेतिक कव्या सेन्ट्रल वैंक ऑक इण्डिया, प्रतिभत लेनदार के अधिकात प्राधिकारी हारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के चकायों की वसुली हेतु उसकी विक्रते 20.03.2024 को "जहाँ है जैसे है", "जो है वहीं है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मुल्य तथा जमा धरोडर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्मिन्यों के विवरणों के सम्मुख प्रदर्शित है। विक्री के विस्तृत नियम एवं जतों के लिए www.centralbankofindia.co.in अथवा https://ibapi.in में प्रावधातित लिंक देखें। अचल सम्पनियों का विवरण

		9141	to a man an impart					
कर्जदार/गारंटर/झाखा का नाम	13(2) सूचना के अनुसार बकावा गणि	अचल सम्पत्ति का विवरण	सम्बन्धि के निरीक्षण की तिथि तथा समय	इंग्लंडी तथा केमाईसी जमा करने की अतिम लिख तथा समय	ई-नीलामी की तिथि तथा संस्थ	करते की तिथि तथा समय	आरक्षित मूल्य (२८) जमा धरोहर राप्ति (२८)	
कर्जदार मैसर्स ओम प्लास्टर इंडस्ट्रीन (प्रोपराइटर श्री अशोक कुमार खर्स)	रु. 16,60,266 (रुपये सोलह लाख साठ हजार दो सौ व्यियासट मात्र) तिथि 15.06,2018 तक + उस पर भावी ब्याज एवं अन्य व्यय	औद्योगिक संपत्ति ख. क्रमांक 56, रोडिचक बंधा क्रमांक 1, सांखला फांटा के पास, ग्राम गुड़ा, तहसील कोलापत, जिला बीकानेर, राजस्थान कुल क्षेत्रफल 2375,91 वर्ग मीटर, स्वामित्व अशोक कुमार खरां के पास, स्वामित्व विलेख के अनुसार सीमाएं : उत्तरः कानाराम का प्लॉट, दक्षिणः कमल किशोर का प्लॉट पूर्वः रास्ता, पश्चिमः ईश्वर चंद का प्लॉट	तिथि 04.03.2024 को 11:00 बजे पूर्वा. से 04:00 बजे अप	রিমি 05.03,2024 জী 04:00 থান ভাষ, গ্রাফ	विधि 05.03.202थ समय : 12:00 दोगहर से 4:00 चने अप.	া, মন্তিলিক ক্ষমৰা নিশ্বি 20.11.2018	बोली वृद्धि राशि (२.) र. 10,19,000/- र. 1,01,900/- र. 10,000/-	
कर्जदार मैसर्स सुभाष इंडस्ट्रीज एंड प्रिंटर्स (प्रोपराइटर श्री सुभाष चन्द्र मंझु)	ह. 22,67,529/- (रुपये बाईस लाख सहस्रट हजार पांच सौ उनतीस मात्र) तिथि 12.05.2023 तक + इस पर भावी ब्याज तथा अन्य व्यय	औद्योगिक संपत्ति खसरा क्रमांक 541/3, कोडमदेसर फाँटा ओवर द्विज के पास, ग्राम नालवाड़ी, बीकानेर-334001 कुल क्षेत्रफल 6806.25 वर्ग फीट, स्वामित्व युभाष चंद्र मांड्यु के पास है, टाइटल डीड के अनुसार सीमाएं : उत्तर: खसरा नंबर 541 की भूमि, दक्षिण: श्री मुखा की फैक्ट्री, पूर्व में खसरा नंबर 542 की भूमि, पश्चिम: ग्रस्ता	तिथि 04.03.2024 को 11:00 यजे पूर्वा, से 04:00 यजे अप.	রিখি 04:03:2024 দী 04:00 নূপ গ্রহ বন্ধ	निधि 05.03.2024 शमप : 12:00 वीपहर से 4:00 शसे अप.	2. মহিল কলা সিঘি 10-08-2023	表 12,00,000/- 表 1,20,500/- 表 10,000/-	

ई-नीलामी की तिथि : 05.03.2024, समय : 12.00 बजे दोपहर से 4.00 बजे अप. तक 10 मिनट के स्थत: विस्तार सहित। इंटमही तथा दरताचेज ( ऑनलाइन) जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय : 05.03.2024 की 4.00 वर्ते अप. तक।

संविदाकार केवलहट https://www.msteecommerce.com पर पेनीकरण करेंगे तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे और मेचा प्रदात हाल दस्तावेजों के सत्वापन के बाद एनईएफटी/अरटीजीएस/अन्तरण के माध्यम से ईएमडी ग्लीबल ईएमडी वालेट में नमा की

जानी है (https://www.msteecommerce.com से चालान के सूजन के बाद)। नीलानी बैंक के अनुमंदित सेवा प्रदाता kkhttps://www.msteecommerce.comli के माध्यम से संचालित की जायेगी। ई-मीलामी "जहाँ है जैसे है", "जो है यहाँ है" तथा "जो कुछ भी है वहाँ है" आधार पर आयोजित को जायेगी। चिस्तृत नियम एवं शली के लिए प्रतिभूत लेजदार की चेबसाइट www.centralbankofindia.co.in अथवा मीलामी प्लेटमार्सर्म 

कर्जदार/जमानतियों को एतद्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपयुंक्त राशि अदा करने के लिए अधिसुचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की

नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसल किया जायेगा। अधिकत प्राधिकारी (सेंटल बैंक ऑफ इंडिया) स्थान : जोधपुर, तिथि : 16.02.2024

## MUTHOOT FINCORP LTD. सोने की नीलामी सूचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN: U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 31.03.2023 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 30.06.2023 and MSGB, SME Suvama & EMI due up to 31.12.2023 तक की अवधि के लिए कम्पनी की नीचे कथित शाखाओं में गिरवी रखे सोने के गहनें जिन्हें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार-बार सूचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाया नहीं गया है उनकी नीलामी 24.02.2024 को 10.00 बजे से शुरू कर दी जाएगी।

F8470, F8479, F8488, F8507, F8509, F8637, F8658, F8753, F8639, F8658, F9000, F9043, F9088, F9156, F9207, F9323, F9344, F9345, F9457, F9550, F9500, F9601, F9606, F9632, F9646, F9653, F9682, F9646, F9653, F9682, F9646, F9653, F9647, F9647, F9647, F9647, F9648, F9 F41273, F41290, F41319, F41319, F41452, F41470, F41473, F41476, F41480, F41480, F41593, F41521, F41523, F41528, F41531, F41532, F41532, F41533, F41533, F41534, F41535, F41544, F41545, F41550, F41557, F41560, F41577, F41580, F41577, F41577 F41563, F41564, F41573, F41578, F41581, F41582, F41586, F41596, F41605, F41614, F41619, F41622, F41623, F41625, F41629, F41630, F41635, F41639, F41639, F41640, F41642, F41644

नीलामी अपनी -अपनी शाखाओं पर आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी किसी कारणवश उसी दिन पूरी न हो पाईतो नीलामी 06.03.2024 को सुबह 10.00 बजे Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, No.29, Netaji Subhash Marg, Near Yes Bank, Daryagani, Delhi - 110002. पर आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ताओं से निवेदन मृत्तूट फ़िनकॉर्प लिमिटेड है कि वे फोटो पहचान - पत्र, PAN कार्ड प्रस्तुत करें। सफल निविदाकर्ताओं को पैसा RTGS द्वारा ट्रांसफ़र करना होगा ।